



भारतीय विद्यालय डारसेट

हिंदी विभाग

पाठ: तोप

कार्यपत्रिका की तिथि: -----

संसाधन व्यक्ति: श्रीमती बीना स्टीफन

तिथि:-----

विद्यार्थी का नाम : -----

कक्षा : X ब

प्रश्नोत्तर

प्र1.विरासत में मिली चीजों की बड़ी सँभाल क्यों होती है ? स्पष्ट कीजिए।

उ1.विरासत में मिली चीजों की बड़ी सँभाल होती है क्योंकि उनसे हमारा भावात्मक संबंध जुड़ा होता है,यादें जुड़ी होती हैं।वे हमारी परंपरा और इतिहास का बोध कराती हैं। नई पीढ़ी इन वस्तुओं को देखकर देश के प्राचीन गौरव, रीति-रिवाज़, संघर्ष को याद कर सीख लेती है। उसे यह अहसास होता है कि देश के वीरों ने किस प्रकार कुर्बानियाँ दी थीं। इतिहास की उपलब्धियों,अच्छाइयों और बुराइयों को इन्हीं के माध्यम से आँका जाता है। गलतियों से सीख ली जाती है और उपलब्धियों का मान किया जाता है।

प्र2.इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है ?

उ2.इस कविता से हमें दो अलग-अलग कालों में तोप के उपयोग के विषय में पता चलता है। 1857 के स्वतंत्रता-संघर्ष में ये तोपें चली थीं। इस तोप ने अपने समय में बहुत कहर ढाया था। इसने अनेक वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों के धज्जे उड़ा दिए थे लेकिन आज यह तोप शांत खड़ी है। आज यह दर्शनीय वस्तु है। बच्चे इसपर चढ़कर घुड़सवारी करते हैं और चिड़ियाँ तथा गोरैयें इसपर फुदक-फुदककर शैतानियाँ करती हैं और इसकी नाल के भीतर घुसकर इसे मनोरंजन का साधन सिद्ध करती हैं।

प्र3.कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है ?

उ3.कंपनी बाग में रखी तोप अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार की प्रतीक है। तोप यह संदेश देती है कि राक्षसी शक्ति, तोप-गोले,बम-बारूद चाहे कितने भी विनाशकारी हों, वे मानव के सामने टिक नहीं सकते। अत्याचारी कोई भी हो एक न एक दिन उसके राज्य का, शासन का, शक्ति का अंत होता ही है।

प्र4.कविता में तोप को दो बार चमकाने की बात की गई है। ये दो अवसर कौन-से होंगे ?

54.भारत की स्वतंत्रता के दो सबसे बड़े त्योहार हैं-15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस । इन दोनों अवसरों पर देश के वीरों को याद किया जाता है , साथ ही तोप और कंपनी बाग को चमकाया जाता है ।